



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1940 (श0)
(सं0 पटना 315) पटना, सोमवार 9 अप्रील 2018

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
4 अप्रील 2018

सं० एल/एच०जी०-16-01/2017-2734—बिहार गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम, 1947 की धारा-13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 में निम्नप्रकार से संशोधन का प्रस्ताव देते हैं, जिसका प्रारूप अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (i) के अधीन उसके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना-15 के समक्ष इसके राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से तीस दिनों के भीतर दायर किए जा सकते हैं।

विहित अवधि के भीतर प्राप्त किसी भी आपत्ति एवं सुझाव पर विभाग द्वारा विचार किया जायेगा:-

प्रस्तावित संशोधन

बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 का नियम-16 में संशोधन।

उक्त नियमावली, 1953 के नियम 16 के उप नियम-(2) का खंड (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ii) सक्षम प्राधिकार द्वारा दंड देने एवं उसके संसूचन के तीस दिनों के भीतर अपीलकर्ता के द्वारा दिए गए अपील आवेदन पर सुनवाई का अधिकार महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को होगा”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 4th April 2018

No.L/H.G.-16-01/2017- 2734—In exercise of the powers conferred under section-13 of Bihar Home Guards Act, 1947, the Governor of Bihar is hereby please to propose to amend the Bihar Home Guards Rules, 1953 the draft as per given below of which is hereby published under subsection (1) of section 13 of the Act for the information of the persons likely to be affected there by and a notice is hereby given that any objection or suggesation may be filed before the Principal Secretary, Home Department, Government of Bihar, Old Secretariat patna-15 within thirty days from the date of it's publication in the official gazette.

Any objection or Suggestion received within the presribed period may be considered by the Department:-

Proposed Amendment

Rule-16, of the Bihar Home Guards Rules, 1953-

Clause (ii) of subrule (2) of Rule 16 of the said Rules, 1953 shall be substituted by the following:-

- " (ii) Director General, Home Guards, Bihar, Patna will have the power to hear appeal application preferred by appellant within thirty days from the date of communication of the order of punishment passed by the Competent Authority."

By order of The Governor of Bihar,

BIMLESH KUMAR JHA,

Joint Secretary to the Government,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 315-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>